

## प्रेस नोट जनपद गाजीपुर

दिनांक - 01-10-2021

### स्वाट टीम, सुहवल पुलिस व रेवतीपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 03 अदद चोरी की ट्रेक्टर, 01 मोटरसाइकिल व 01 तंमचा बरामद किया गया ।

पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी जमानिया के मार्गदर्शन में दिनांक:30.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक सुहवल विनीत राय मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि वहीं पर स्वाट टीम के 30नि0 सुनील तिवारी मय हमराह आकर मिले । पुलिस टीम द्वारा रेवतीपुर क्षेत्रान्तर्गत कुछ दिनों पूर्व हुई लूट के बारे में चर्चा की जा रही थी कि वहीं रेवतीपुर बाजार में थाना प्रभारी रेवतीपुर भी आकर मिल गये, आपस में चर्चा की जा रही थी कि सूचना मिली की ट्रेक्टर चोरी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य चोरी की ट्रेक्टर बेचने के लिए गंगा पुल के रास्ते बिहार जा रहे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक सुहवल, थाना प्रभारी रेवतीपुर एवं स्वाट टीम मिलकर सुहवल रेवतीपुर बार्डर पुलिसिया पर पहुंच कर चेकिंग करने लगे, चेकिंग के दौरान 02 ट्रेक्टर बिना ट्राली के गाजीपुर से आते हुए दिखाई दी, जिन्हें रूकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ट्रेक्टर छोड़कर भागने लगे । जिस पर पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया । जामा तलाशी के दौरान 01 अभियुक्त के पास से 01 अदद तंमचा .315 बोर तथा 02 जिंदा कारतूस व 1400 रूपये बरामद हुए । अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि दोनों ट्रेक्टर चोरी की है, जिसमें से दिनांक:12.07.2021 को 01 ट्रेक्टर हनुमान मंदिर, पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी से चुराया था तथा दूसरा ट्रेक्टर दिनांक:05.09.2021 को बकराबाद पंचायत भवन, जलालपुर, जनपद जौनपुर से चुराया था । अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि 01 ट्रेक्टर जिसको हम लोगों ने गोविन्दपुर, जनपद वाराणसी से चुराया था वो अभियुक्त रविकांत के गाँव के पास मंदिर के बगल में खड़ी है तथा 01 चोरी की मोटरसाइकिल जिसे दिनांक:23.07.2021 को पनिहारी, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी से चुराया था वह अभियुक्त मृत्युजंय के घर खड़ी है। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा वाहन चोरी करके नंबर प्लेट बदलकर बिहार राज्य में बेच दिया जाता है। थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 93/2021 धारा 419,420,468,411 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 94/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:**

1. रविकांत सिंह उर्फ रजत सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह, नि0-ग्राम ऊचहुआँ, थाना तरवा, आजमगढ़।
2. मृत्युजंय कुशवाहा पुत्र नरसिंह कुशवाहा, नि0-ग्राम तरांव, थाना सैदपुर, गाजीपुर।

#### **आपराधिक इतिहास-**

##### अभियुक्त रविकांत सिंह उर्फ रजत

- मु0अ0सं0- 143/2019, धारा-394 भादवि, थाना सैदपुर  
मु0अ0सं0-144/2019, धारा-307,411 भादवि, थाना सैदपुर  
मु0अ0सं0-175/2019, धारा-3(1) गैगैस्टर एक्ट, थाना सैदपुर

##### अभियुक्त मृत्युजंय कुशवाहा

- मु0अ0सं0-152/2019, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना नन्दगंज,  
मु0अ0सं0-163/2020, धारा-3(1) गैगैस्टर एक्ट, थाना नन्दगंज,  
मु0अ0सं0-67/2018, धारा-379, 411 भादवि, थाना नोनहरा  
मु0अ0सं0-71/2018, धारा-379, 411 भादवि, थाना नोनहरा  
मु0अ0सं0-96/2019, धारा-41, 411, 413, 414 भादवि, थाना भुड़कुड़ा  
मु0अ0सं0-33/2020, धारा-79, 411 भादवि, थाना मरदह  
मु0अ0सं0-51/2019, धारा- 323, 342, 504 भादवि, थाना सैदपुर  
मु0अ0सं0-1316/2016, धारा-394 भादवि, थाना सैदपुर

मु0अ0सं0-137/2019, धारा-379, 411 भादवि, थाना कासिमाबाद

मु0अ0सं0-689/2019, धारा-42/45 कारागार अधिनियम, थाना कोतवाली

मु0अ0सं0-34/2020, धारा-411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना नन्दगंज

मु0अ0सं0-56/2018, धारा-379, 411 भादवि, थाना नन्दगंज

**बरामदगी का विवरण:**

1. 03 अदद ट्रैक्टर (विभिन्न जनपदों से चोरी की)।
2. 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल।
3. 01 अदद तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस।

**गिरफ्तार करने वाली टीम:**

1. नि0 विनीत राय, प्र0नि0 सुहवल, गाजीपुर।
2. उ0नि0 रामाश्रय राय, थानाध्यक्ष रेवतीपुर, गाजीपुर।
3. उ0नि0 सुनील तिवारी, स्वॉट टीम, गाजीपुर।
4. हे0का0 प्रेमशंकर, राम प्रताप, संजय रजावत, विनय यादव स्वॉट टीम, गाजीपुर।
5. हे0का0 सुधीर कुमार, अमित सिंह, ओमवीर सिंह, थाना सुहवल, गाजीपुर।
6. कां0 विकास श्रीवास्तव, आशुतोष सिंह, चन्दन मणि, प्रमोद कुमार स्वॉट टीम गाजीपुर।
7. कां0 सौरभ यादव, मृदुल मणि त्रिपाठी, विजय यादव, थाना रेवतीपुर, गाजीपुर।